



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 अग्रहायण 1936 (श0)
(सं0 पटना 966) पटना, बृहस्पतिवार, 27 नवम्बर 2014

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

24 नवम्बर 2014

सं0 4 (न) निर्वा-01/09-3642—नगर पंचायत, खुशरूपुर (पटना) एवं नगर पंचायत, डुमरा तथा जनकपुर रोड (सीतामढ़ी) का कार्यकाल क्रमशः दिनांक 12.02.2015, 10.03.2015 एवं 11.03.2015 को समाप्त हो रहा है; और चूँकि वैधानिक प्रावधानों के अधीन उस नगरपालिका के लिए चुनाव कराना आवश्यक हो गया है, अतः बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्या-11, 2007) की धारा-441 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार राज्य के राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना की अनुशंसा पर एतद् द्वारा नगर पंचायत, खुशरूपुर (पटना) एवं नगर पंचायत, डुमरा तथा जनकपुर रोड (सीतामढ़ी) के पार्षदों के निर्वाचन के लिये मतदान हेतु 18. जनवरी, 2015 की तिथि नियत करते हैं तथा अपेक्षा करते हैं कि मतदातागण बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के उपबंधों के अनुसार पार्षदों को निर्वाचित करें।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बी0 राजेन्दर,
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 966-571+25-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>